

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05042025-262314
SG-DL-E-05042025-262314असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]	दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/ चैत्र 14, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 05
No. 20]	DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/ CHAITRA 14, 1947	[N. C. T. D. No. 05

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

सं. 15/नियम/डीएचसी.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 129 तथा दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद् द्वारा, “दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018” में, जिन्हें दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV संख्या 50 (एन.सी.टी.डी. संख्या 454) दिनांक 28.02.2018 में अधिसूचना संख्या 100/नियम/डीएचसी दिनांक 27.02.2018 द्वारा अधिसूचित एवं दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग IV सं. 201 (एन.सी.टी.डी. सं. 635) दिनांक 18.10.2018 में अधिसूचना संख्या 722/नियम/डीएचसी दिनांक 16.10.2018 द्वारा फिर संशोधित कर प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करता है :-

संशोधन

दिल्ली उच्च न्यायालय (ओरिजिनल साइड) नियम, 2018 के अनुलग्नक 'इ' के मौजूदा खंड 10 के स्थान पर निम्न लिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

अंतिम आदेश की तिथि:	आदेशिका प्राप्ति की तिथि:
आदेशिका शुल्क दाखिल करने की तिथि:	आदेशिका की तामील की तिथि:
जारी करने की तिथि:	सम्बंधित सहायक को आदेशिका वापस करने की तिथि :
सम्बंधित सहायक -	स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

(साधारण ओरिजिनल सिविल क्षेत्राधिकार)

वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वाद में विवादक के निपटारे के लिए समन

(वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 6 के तहत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश V, नियम I में संशोधन)

सि. वा. (ऑ. सा.) वा. सं. 20....

CS (OS) COMM NO.of 20....

के मामले में:

श्री/सुश्री/श्रीमती

...वादी (गण)/आवेदक (गण)

बनाम

श्री/सुश्री/श्रीमती

... प्रतिवादी(गण)/ प्रत्यर्थी (गण)

सेवा में

प्रतिवादी (गण)

(वादपत्र/ पक्षकारों के ज्ञापन के अनुसार नाम, विवरण और निवास स्थान)

जबकि वादी(गण) ने आपके विरुद्ध वाणिज्यिक विवाद से संबंधित वाद दायर किया है, आपको एतद्वारा अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपके द्वारा दायर किया गया दस्तावेज की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने वाला बयान, यदि कोई हो, भी शामिल होगा। वादी (गण) द्वारा दायर दस्तावेज के स्वीकृति/प्रत्याख्यान का शपथ पत्र आपके लिखित बयान के साथ होना चाहिए, जिसके बिना, आपका लिखित बयान रिकार्ड पर नहीं लिया जाएगा। जहां दस्तावेज की प्रतिलिपि आपके द्वारा दाखिल की जाती है, वहां आपके लिखित बयान की अनुक्रमणिका में यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि इसकी मूल प्रति किसकी अभिरक्षा, अधिकार और नियंत्रण में है।

यदि आप वादी द्वारा दायर दस्तावेज का निरीक्षण चाहते हैं, तो आप ऐसे समन की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर आवेदन दायर करके ऐसा कर सकते हैं। ऐसे मामले में, ऐसे समन की प्राप्ति तभी पूरी मानी जाएगी जब वादी (गण) द्वारा निरीक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। निरीक्षण के बाद, समन को विधिवत तामील हुआ माना जाएगा और आपका लिखित बयान पूर्वोक्त अनुसार वर्तमान समन की तामील के 30 दिनों के भीतर दाखिल किया जाएगा।

यदि आप 30 दिनों की उपरोक्त अवधि के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो कारण बताने पर, न्यायालय आपको इन समन की तामील की तारीख से 120 दिन के भीतर, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए और न्यायालय द्वारा आदेशित शर्तों पर किसी अन्य दिन इसे दाखिल करने की अनुमति दे सकता है। उक्त 120 दिनों की अवधि समाप्त होने पर आप अपना लिखित बयान दाखिल करने का अधिकार खो देंगे तथा न्यायालय उसे रिकार्ड पर लेने की अनुमति नहीं देगा।

आपसे यह भी अपेक्षित है कि आपको दिनांक..... को..... बजे इस न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से, अथवा किसी वकील द्वारा, जो सम्यक रूप से अनुदिष्ट हो तथा मुकदमे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, अथवा दावे का उत्तर देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हो, उपस्थित होना होगा। आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त दिन अपने पास या अपने अधिकार में उपलब्ध सभी दस्तावेज प्रस्तुत करें, जिनके आधार पर आप अपना बचाव या मुजर्राई का दावा या प्रति-दावा करते हैं।

कृपया ध्यान दें कि पूर्वोक्त अनुसार दिन पर आपके उपस्थित न होने पर, वाद की सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जा सकता है।

दिनांक..... 20.....को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

न्यायाधीश/निबंधक

नोट: यदि आप माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना चाहते हैं, तो आपको उच्च न्यायालय में प्रवेश हेतु गेट पास प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

1. आपको दिया गया नोटिस या उच्च न्यायालय में आपकी आवश्यकता/आपकी उपस्थिति को प्रमाणित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज।
2. पहचान प्रमाण (आधार कार्ड/चुनाव पहचान-पत्र/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट)

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 4th April, 2025

No. 15/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred by Section 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in the “Delhi High Court (Original Side) Rules, 2018” which were notified vide Notification No. 100/Rules/DHC dated 27.02.2018, in Delhi Gazette Extraordinary, Part IV No. 50 (N.C.T.D. No. 454) dated 28.02.2018 and further amended vide Notification No. 722/Rules/DHC dated 16.10.2018 published in Delhi Gazette Extraordinary Part IV No. 201 (N.C.T.D. No. 635) dated 18.10.2018 : -

AMENDMENT

THE FOLLOWING SHALL BE SUBSTITUTED FOR THE EXISTING CLAUSE 10 OF ANNEXURE E OF DELHI HIGH COURT (ORIGINAL SIDE) RULES, 2018 :-

Date of Last Order:	Date of receipt of Process:
Date of filing of P.F.:	Date of Service of Process:
Date of Issuance:	Date of Returning of Process to DA:
DA -	Speed Post/ Regd. AD

IN THE HIGH COURT-OF DELHI AT NEW DELHI

(ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION)

Summons for Settlement of Issues in Suit Relating to a Commercial Dispute

(U/s 6 of the Commercial Courts Act, 2015 amending Order V, Rule I of the Code of Civil Procedure, 1908)

CS (OS) COMM No.....of 20.....

In the matter of:

Mr./Ms./M/s

... Plaintiff(s)/

Applicant(s)

Versus

Mr./Ms./M/s

.... Defendant(s)/ Respondent(s)

To

Defendant(s)

(Name, description and place of residence as per Plaint/ Memo of Parties)

Whereas the plaintiff(s) has/ have instituted a suit against you relating to a commercial dispute, you are hereby summoned to file your Written Statement that also contains a statement certifying authenticity of document, if any, filed by you. An affidavit of admission/ denial of document filed by the plaintiff(s) shall accompany your Written Statement without which, your Written Statement shall not be taken on record. Where copy of document are filed by you, the Index to your Written Statement shall also specify as to in whose custody, power and control are the original thereof.

If you seek inspection of document filed by the plaintiff, you may do so by filing an application, not later than 7 days from receipt of these summons. In such case, receipt of these summons shall only be deemed to be complete only after inspection is provided by the Plaintiff(s). Upon inspection, summons shall be deemed to be duly served and your Written Statement shall be filed within 30 days of the service of present summons as aforesaid.

In case you fail to file your Written Statement within the aforesaid period of 30 days, upon showing cause, the Court may allow you to file the same on such other day, not later than 120 days from the date of service of these summons, as may be specified and on terms ordered by Court. On expiry of the said 120 days, you shall forfeit the right to file your Written Statement and the Court shall not allow the same to be taken on record.

You are also required to appear in this Court in person, or by a pleader duly instructed and able to answer all material questions relating to the suit, or be accompanied by some person able to answer all such questions, on the day of at O'clock in the noon, to answer the claim. You are further directed to produce on the said day, all documents in your possession or power upon which you base your defence or claim for a set-off or counter-claim.

Take notice that, in default of your appearance on the day before mentioned, the suit may be heard and determined in your absence.

Given under my hand and the Seal of the Court, this day of 20 .. .

Judge/Registrar

Note: If you want to appear in person before the Hon'ble Court, you are required to produce the following documents in order to obtain a gate pass for your entry to the High Court:-

1. Notice served upon you or any other document proving your requirement/ your presence in the High Court.
2. Identity proof (Aadhar Card/ Election Identity Card/ Ration Card/ Driving Licence/ Passport)]

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE
OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

BY ORDER OF THE COURT
KANWAL JEET ARORA, REGISTRAR GENERAL